

जून 2020

1. पीएमसीएच में थैलेसीमिया रोगियों के लिए डेकेयर केंद्र का शुभारंभ

- राज्य का पहला हेमोग्लोबिनोपैथी डे केयर सेंटर पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (पीएमसीएच) में परिचालन के लिए तैयार है।
- इस केंद्र थैलेसीमिया, हीमोफिलिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों को चिकित्सा सहायता और परामर्श भी प्रदान करेगा।
- थैलेसीमिया रोगियों के लिए रक्त आधान सुविधा के अलावा, इसमें हीमोग्लोबिन, अंतर ल्यूकोसाइट की गणना, कुल ल्यूकोसाइट गणना एवं सीरम फेरिटिन परीक्षण के लिए परीक्षण सुविधा भी होगी। इस केंद्र में एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी परीक्षणों के लिए भी सुविधा होगी।

2. दूरदर्शन पटना देश का पहला ग्रीन हब (हरित केंद्र) बना, इसने पाँच इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन शुरू किया

- पटना दूरदर्शन केंद्र देश का पहला दूरदर्शन केंद्र बन गया, जहाँ इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन शुरू की गयी है।
- पटना केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर-जनरल राजीव सिन्हा ने पांच इलेक्ट्रिक कारों को हरी झंडी दिखाई।
- ईईएसएल और पटना दूरदर्शन केंद्र के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पटना केंद्र को ईईएसएल कंपनी द्वारा रियायती दरों पर पर टाटा टिगोर की पांच कार किराये पर दिया गया है।

3. न्यायमूर्ति विनोद बिहार मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने

- लगभग चार वर्षों के बाद, बिहार मानवाधिकार आयोग को उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा के रूप में अध्यक्ष मिला है।
- बिहार मानवाधिकार आयोग में कुल तीन पद हैं, जिनमें अध्यक्ष और दो सदस्य शामिल हैं।
- नवंबर 2016 में न्यायमूर्ति बिलाल नजकी के सेवानिवृत्त होने के बाद, आयोग के सदस्य मंधाता सिंह कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे।

4. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को सेवानिवृत्ति के दिन ही राज्य लोक सेवा

आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

- राज्य सरकार ने 1987-बैच के आईएएस अधिकारी आरके महाजन को 31 अगस्त, जिस दिन वे सेवानिवृत्त हुए, को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) का अध्यक्ष नियुक्त किया।
- 19 जुलाई को तत्कालीन अध्यक्ष शिशिर सिन्हा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद बीपीएससी के अध्यक्ष का पद 19 जुलाई से खाली पड़ा हुआ था।
- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, बीपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में आरके महाजन की नियुक्ति 1 सितंबर से प्रभावी होगी।